

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/साध 2, 1893

No 19] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/MAGHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January 1972

No. 3A-Pres/72.—The President is pleased to make the following awards:—

PADMA BHUSHAN

Shri Khusro Framurz Rustamji, Director General of Border Security Force, Government of India.

Shri Ashwini Kumar, Inspector General, Border Security Force, Western Frontier, Jullundur.

Shri Surinder Singh Bedi, Commissioner, Jullundur Division, Jullundur.

Shri S. S. Sahi, Chief Engineer, Drainage, Government of Punjab, Chandigarh.

PADMA SHRI

Shri Bhuwan Chand Pande, Inspector General, Border Security Force Academy, Tekanpur, Gwalior.

Shrimati Mail, wife of Shri Gaffar, Village Arai, District Punch, Jammu and Kashmir State.

Shri Pallessena Ramanathan Rajgopal, Inspector General, Border Security Force, New Delhi.

Shri Rajinder Singh, Deputy Commissioner, Gurdaspur.

Shri Sukhbir Singh, Deputy Commissioner, Amritsar.

Shri Swarn Singh Bopara, Deputy Commissioner, Ferozepur.

Shri Vijay Singh, Collector, Sri Ganganagar, Rajasthan.

NAGENDRA SINGH, Secy.

राष्ट्रपति सचिवालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सं० 3 ए-प्रेज०/72—राष्ट्रपति निम्नांकित उपाधियां सहर्ष प्रदान करते हैं :—

पद्म भूषण

श्री खुमरो फ़ग़मुज्ज हस्तमजी, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, भारत सरकार ।

श्री अश्विनि कुमार, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, पश्चिमी सीमा, जालन्धर ।

श्री सुरेन्द्र सिंह बेदी, कमिश्नर, जालन्धर डिवीजन, जालन्धर ।

श्री एस० एम० माही, मुख्य अभियन्ता, जल निकासी, पंजाब सरकार जण्डीगढ़ ।

पद्म श्री

श्री भुवन चन्द पांड, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल अकादमी, टेकनपुर, ग्वालियर ।

श्रीमती माली, पत्नी श्री गफ़ार, ग्राम घरई, जिला पुंछ, जम्मू व कश्मीर राज्य ।

श्री पल्लेस्तेना रामनाथन राजगोपाल, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, नई दिल्ली ।

श्री राजेन्द्र सिंह, जिलाधीश, गुरदासपुर ।

श्री सुखबीर सिंह, जिलाधीश, अमृतसर ।

श्री स्वर्ण सिंह बोपाराय, जिलाधीश, फ़िरोज़पुर ।

श्री विजय सिंह, जिलाधीश, श्री गंगानगर, राजस्थान ।

नागेन्द्र सिंह,

राष्ट्रपति के सचिव ।